

वित्तीय साक्षरता के समझ की परख:-

1. आपके घर की वित्तीय सेहत अच्छी कब कही जा सकती है, चित्र देखकर सही को टिक करो



2. हमारी आवश्यक आवश्यकता, इच्छा और विलासिता को पहचान कर तीर मिलान करो -

आवश्यक आवश्यकता	बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला, शराब, जुआ
इच्छा	महंगे फ़ोन, महंगे उपहार, महंगे गहने, महँगी गाड़ियाँ, कर्ज लेकर शौक पुरे करना
विलासिता	खाना, कपड़े, मकान, पढ़ाई, इलाज, फल, दूध

3. हमें हमारे कमाई का कुछ हिस्सा नियमित बचत के रूप में जोड़ते रहना चाहिये क्योंकि -

- जीवन में खर्चे उम्र के हिसाब से लगातार बढ़ते रहते हैं जबकि कमाई उस अनुपात में नहीं बढ़ती
- आचानक आने वाली बड़ी आपदाओं जैसे तालाबंदी, महामारी इत्यादि
- हमारी बचत भी लम्बे समय में कमाई में इजाफा लाती है
- कमानेवाले के असमय निधन या विकलांगता की स्थिति में आश्रित सदस्यों को सहारा देता है
- जब कमानेवाला कमाई की उम्र पार कर जाता है तब बचत उसे सहारा देता है
- उपरोक्त सभी

4. बैंक में बचत खाता होने से क्या क्या लाभ हो सकता है?

- पैसे जमा करा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर निकासी कर सकते हैं
- घर बनाए के लिए, व्यवसाय के लिए अथवा पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं
- विमा की सुविधा ले सकते हैं
- क्रेडिट कार्ड, ए टी एम या चेक बुक की सुविधा ले सकते हैं
- उपरोक्त सभी

5. बचत का सही निवेश कैसे करें?

- पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा खाता खोलकर
- बैंक में पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड का खाता खुलवाकर
- कन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 साल से छोटी बेटी का खाता खुलवाकर
- Pmsym योजना के अंतर्गत पेंशन कार्ड बनवाकर
- उपरोक्त सभी